



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 16, 2005/माघ 27, 1926

No. 49]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 16, 2005/MAGHA 27, 1926

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2005

सं. आर.एस.-10/2005-टी.—राज्य सभा के नाम निर्देशित सदस्य श्री विद्या निवास मिश्र का 14 फरवरी, 2005 को निधन हो गया और उसके परिणामस्वरूप राज्य सभा में उनका स्थान उस तारीख से रिक्त हो गया है।

योगेन्द्र नारायण, महासचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2005

No. RS-10/2005-T.—Shri Vidya Nivas Misra, nominated Member of the Council of States (Rajya Sabha), expired on the 14th February, 2005 and consequently his seat in the Rajya Sabha has become vacant with effect from that date.

YOGENDRA NARAIN, Secy.-General